

प्रेस- नोट थाना सिकरीगंज दिनांक 24-05-2021
मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोप में 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी सिकरीगंज द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/21 धारा 147/149/323/504/506/307/342 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गयी।

दिनांक 22.05.2021 को परमवीर चौहान पुत्र लक्ष्मण निवासी करमदेवा बुजुर्ग थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर व उसके एक साथी को सहज जनसेवा केन्द्र जयपालपार से पैसा निकालकर आते समय अमरावती देवी महाविद्यालय जयपालपार गेट के पास पूर्व विवाद को लेकर दयाराम गुप्ता आदि अभियुक्तों द्वारा मारपीट करके घायल कर देने तथा बीच बचाव करते समय तीन अन्य लोगों के साथ मारपीट किया गया, घटना में गम्भीर रूप से घायल मजरुब परमवीर चौहान को घातक चोटें आयी जिन्हें उपचार के दरौन बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर द्वारा रेफर किये जाने के उपरान्त वर्तमान समय में उपचार KGMC लखनऊ में चल रहा है घटना के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/21 धारा 147/149/323/504/506/307/342 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट अभियोग पंजीकृत करते हुये वांछित अभियुक्तों की तलाश व दबिश देकर आज उक्त मुकदमे में नामित वांछित अभियुक्तगण 1. दयाराम गुप्ता पुत्र दुख्खी गुप्ता 2. राजू गुप्ता 3. मुनीब गुप्ता 4. धनपति गुप्ता पुत्रगण दयाराम गुप्ता निवासीगण भिटहा कुवर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1. दयाराम गुप्ता पुत्र दुख्खी गुप्ता निवासी भिटहा कुवर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. राजू गुप्ता पुत्र दयाराम गुप्ता निवासी भिटहा कुवर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
3. मुनीब गुप्ता पुत्र दयाराम गुप्ता निवासी भिटहा कुवर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
4. धनपति गुप्ता पुत्र दयाराम गुप्ता निवासी भिटहा कुवर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

तरौना पुल के पास दिनांक 24.05.2021 समय 10.05 बजे

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 68/21 धारा 147/149/323/504/506/307/342 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. श्री राजाराम द्विवेदी थानाध्यक्ष सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रमेश चन्द कुशवाहा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
3. का0 रामानन्द थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
4. का0 गौरव सिंह थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
5. म0का0 विभा शुक्ला थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर